IGC INDUSTRIES LIMITED

(Formerly known as IGC Foils Limited) CIN: L01100WB1980PLC032950

Regd. Office: 12 Government Place (East), 1st Floor Formerly Hemanta Basu Sarani, Kolkata-400069 Corporate Office: 22-A, Floor-2, 30f, Vasudev Mansion, Cawasji Patel Road, Horniman Circle, Fort, Mumbai-400001 Telephone No: 88828 64121, Email ID: igcfoils@gmail.com

D. Igcions@gman.com

Date: 27th November, 2024

To, The Manager (Listing), BSE Limited PJ Tower, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001 Scrip Code: 539449

Sub: Intimation regarding compliance with Regulation 92 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended ("SEBI ICDR Regulations") and Regulation 30 read with Schedule III of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("SEBI Listing Obligations") - Newspaper Advertisement

Ref: Reg. 47 of SEBI (LODR) Regulation, 2015;

Dear Sir/Madam,

The basis of allotment in compliance with Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulation, 2018 was finalized on Friday 22nd, November 2024. Further, the Board of Directors in their meeting held on Friday 22nd, November 2024 has approved allotment of **3,24,80,000** Equity Shares of the face value of Rs. 10.00/- each of the Company for cash at a price of Rs. 13.00/- per share (including a premium of Rs. 3.00/- per Equity Share).

In accordance with the SEBI (ICDR) Regulations and other applicable laws including the circulars issued by SEBI from time to time, we enclose copies of newspaper advertisements issued by the Company and published today i.e., Wednesday, 27th November, 2024 with respect to the basis of allotment in all editions of English national daily newspaper, "**Financial Express**", all editions of Hindi national daily newspaper, "**Jansatta**", and Kolkata newspaper, "**Duranta Barta**".

This is for your information and records and request you to upload the same on your website.

Thanking You

For IGC Industries Limited

Mr. Salman Mahibub Sayyad Managing Director DIN: 09837263

ShareChat posts

33% revenue

Vedanta to invest \$2 bn in Saudi copper projects

MATTHEW MARTIN Bengaluru, November 26

VEDANTA IS SET to invest \$2 billion to build copper-processing facilities in Saudi Arabia, a significant boost for the kingdom's ambitions to become a global metals and

mining hub. The company, controlled by Indian billionaire Anil Agarwal, will build a new smelter and refinery with a capacity of 400,000 electric cables metric tons per

year, according to a statement Tuesday. Vedanta also plans to set up a facility to produce as much as 300,000 tons per year of cop-

per rods, a key raw material for electric cables. "It's just impossible to ignore the demand for copper," Chris Griffith, chief executive officer of Vedanta Base Metals, said in an interview. "This project ties in very nicely, both with our own ambitions as Vedanta to grow our footprints in India and the Middle East,

but also with the industrial

growth strategy in Saudi Ara-

bia their desire to secure a cop-

The firm also plans to set up a facility to produce as much as 300,000 tonne per year of copper rods, a key raw material for

> foreign direct investment to help drive Crown Prince Mohammed bin Salman's economic diversification plan. "This part of West Asia is

per supply chain." The firm

plans to commence operations

in the kingdom with a 125

kiloton peryear copper rod mill

project that will require an

investment of about \$30 mil-

lion, it said in a statement. Full

commercial production is

Vedanta's \$2

billion investment

will be among the

biggest by a for-

eign firm backing

Saudi Arabia's

metals strategy,

and a major boost

efforts to attract

Riyadh's

expected to start in 2026.

where the next wave of growth is happening," Griffith said. Vedanta hasn't yet inked further agreements with Saudi companies but there will be opportunities to partner with local firms, he said. According to government

estimates, Saudi Arabia has untapped resources including phosphate, copper, gold and bauxite worth as much as \$2.5 trillion. —BLOOMBERG **UP TO 70% DISCOUNTS ON OFFER**

Retailers eye brisk biz in Black Friday frenzy

VIVEAT SUSAN PINTO Mumbai, November 26

IN LINE WITH the biggest shopping festival in the West, which takes place on November 29 this year, several of the country's leading brands and retailers such as Adidas, Flipkart, Nykaa, and Amazon have started their Black Friday offers.

Black Friday, a concept imported from the US, marks the start of the Christmas shopping season. In India, it has been gaining popularity, especially as it follows Diwali, explains Nilesh Gupta, director of Vijay Sales, an electronics retailer. This year, Black Friday will span November 29-30 and December 1, concluding with Cyber Monday, a retail event focused on electronics and driven by e-commerce platforms, on December 2.

"There is typically a lull after Diwali because the festive season is a long one in India. Black Friday tends to fill up this post-Diwali phase, enticing consumers with lucrative deals, offers, discounts," Gupta says. Some retailers start their Black Friday sales early, offering discounts from anywhere between 25-30% at the lower **SHOPPING BONANZA**

Leading brands such as Adidas, Flipkart, Nykaa, Amazon have started their Black Friday offers

This year, **Black Friday** will begin Nov 29 and conclude with Cyber Monday, on Dec 2

end to 50-70% at the upper

end of the band. Retailers also

step up consumer promotions

and campaigns to amplify

their presence during the occa-

sion. Categories that are big

during the occasion include

beauty, lifestyle and fashion

mobile phones and electronic

items to home and personal

expert and consultant Jay-

deep Shetty says that Black

Friday has gained ground in

India thanks to the digital and

e-commerce boom in the

Mumbai-based

care products.



to fill up the lull post-Diwali, enticing consumers with lucrative deals, offers discounts, according to Vijay Sales

retail

feminine twist country as well as the growing presence of global brands here. "It is also targeted at a

younger audience to drive

sales," he says.

■ H&M, Zara,

Sony, Puma

have taken

Friday sales

Nykaa has

rebranded

adding a

Black Friday

as 'Pink Friday',

centre stage

with campaigns

promoting Black

Brands like H&M, Zara, Uniqlo, Samsung, Sony, Adidas, and Puma have taken centre stage this year with campaigns promoting their Black Friday sales. Indian retailers, including Croma and Nykaa, have also actively participated. Nykaa, for instance, has rebranded Black Friday as "Pink Friday", adding a feminine twist to appeal directly to

its beauty and fashion-conscious consumers.

The beauty retailer is offering deals on over 1,900 brands across skincare, makeup, hair care and fragrances, it said. Free gifts on orders, daily deals on bestsellers, and new and exclusive beauty brands are part of the sale, it said.

Samsung, on the other hand, is offering a discount of up to ₹12,000 on Galaxy phones and accessories including the Galaxy Watch. It is also offering instant cashback on upgrades of phones and accessories and has deals on a host of other categories.

Gupta says he prefers to stay true to the occasion and will go live on Friday with his sale, offering as much as a 50-60% discount on mobile phones and home appliance products.

"The beauty of Black Friday is in the name," he says. "In the West, Black Friday is synonymous with a shopping extravaganza, that begins in the wee hours of the morning, extending into the night. In India, I see Black Friday becoming what Independence Day and Republic Day is in a few years from now," he adds.

growth in FY24 Firm targets IPO in 18-24 months

ANEES HUSSAIN

Bengaluru, November 26

SOCIAL **HOMEGROWN** MEDIA unicorn Mohalla Tech, which operates ShareChat and short video platform Moj, reported a 33% year-on-year revenue growth, reaching ₹718 crore in FY24, up from ₹540 crore in FY23.

Consolidated losses before tax in FY24 stood at ₹1,898 crore. In FY23, the social media company recorded a net loss of ₹5,144 crore, primarily due to thewrite-offassociated with the MX TakaTak acquisition.

The firm is targeting an IPO in next 18-24 months after achieving overall profitability, which it expects by fiscal end. CFO Manohar Charan said: "Our first target is to achieve overall profitability. The usual practice is to prove at least two quarters of profitability before starting IPO preparations."

The app turned profitable in October, posting a 15% positive Ebitda margin, while its short video platform Moj is expected to achieve profitability by the



end of current fiscal. "We are now burning ₹5 crore per month and are already at a revenue run rate of ₹800 crore for FY25. We will head into FY26 with a fully profitable P&L statement,"he said. Manohar attributed the

improved financial performance to a combination of revenue growth and cost optimisa tion, which included a 50% reduction in server-side costs.

The firm, however, fell short of its FY24 revenue target of ₹800-900 crore, which Man ohar attributed to challenges in the advertising segment.

Video continues to dominate as the primary content for mat on ShareChat and Moj, con tributing 65-70% of all views.

Manohar said the firm is now exploring acquisitions."We are looking at inorganic growth opportunities while also increasing our user base and revenue per user," he said.

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for an offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated October 15, 2024 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

IGC INDUSTRIES LIMITED

(Formerly known as IGC Foils Limited)

Corporate Identification Number: L01100WB1980PLC032950

Our Company was originally incorporated as Maxwell Traders & Exporters Limited under the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Kolkata and consequently a certificate of incorporation dated August 26, 1980. Later, the name of the company was changed from "Maxwell Traders & Exporters Limited" to "IGC Foils Ltd" vide fresh certificate of incorporation consequent upon change of name "ROC letter no NCR/CN/329500/19/5/98". Subsequently the name of the Company was changed from "IGC Foils Ltd" to its present

> Registered Office: 12 Government Place (East), 1st Floor Formerly Hemanta Basu Sarani, Kolkata-400069 Tel. NO.: 033-46021453; 8882864121 E-mail: igcfoils@gmail.com; Website: www.igcindustriesltd.com;

Contact Person: Arpit Jain, Company Secretary and Compliance Officer

name "IGC Industries Limited" vide fresh certificate of incorporation consequent upon change of name dated October 03, 2017"

RIGHT ISSUE OF UPTO 3,24,80,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10.00 EACH ("EQUITY SHARES" OR "RIGHTS EQUITY SHARES) OF OUR COMPANY FOR CASHAT A PRICE OF ₹13.00 PER RIGHTS EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ?3.00 PER RIGHTS EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹4222.40 LAKH ("THE ISSUE") ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF TWENTY NINE (29) RIGHT EQUITY SHARE FOR EVERY TWO (2) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ON THE RECORD DATE THAT IS OCTOBER 18, 2024 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 118 OF THIS LETTER OF OFFER. fully subscribed

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company thanks all its shareholders and investors for their response to the Company's Rights Issue of Equity Shares, which opened for subscription on Monday, November 04, 2024 and closed on Monday, November 18, 2024 and the last date for On Market Renunciation of Rights Entitlements was Tuesday, November 12, 2024. Out of the total 228 Applications for 12377944 Rights Equity Shares, 314 Applications for 1276044 Rights Equity Shares were rejected on grounds of "technical reasons" as disclosed in the Letter of Offer, The total numbers of valid applications were 1105 for 48558278 Rights Equity Shares, which was 149.50% of the number of Rights Equity Shares allotted under the Issue. Our Company in consultation with Registrar to the Issue and BSE Limited, the Designated Stock Exchange on November 22, 2024, approved the allotment of 3,24,80,000 fully paid -up Rights Equity Shares to the successful applicants. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. All valid applications have been considered for

The break-up of valid Applications received through ASBA (after technical rejections) is given below:

es Allotted	Total Equity Shares	Number of Equity Shares Allotted - Against valid additional shares	Number of Equity Shares Allotted - against REs (including ASBA applications) received	Cagteory
r	Number	Number	Number	
9	8080749	2892477	5188272	Eligible Equity Shareholders
1	24399251	22932812	1466439	Renouncees
0	32480000	25825289	6654711	Total
÷	730000000	077333347	113.000.000 (2.00.000.000	Total

Catanani	Gross			Less: Rejections/Partial Amount			Valid		
Category	Applications	Shares	Amount (₹)	Applications	Shares	Amount (₹)	Applications	Shares	Amount (₹)
Eligible Equity Shareholders	632	8213142	106770846.00	2	132393	1721109.00	630	8080749	105049737.00
Fraction	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Renouncees	476	40477539	526208007.00	1	10	130.00	475	40477529	526207877.00
Not a eligible equity shareholders of the company	311	1143641	14867333.00	311	1143641	14867333.00	0	0	0.00
Total	1419	49834322	647846186.00	314	1276044	16588572.00	1105	48558278	631257614.00

Intimations for Allotment, Refund / Rejections Cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, has been completed October 31, 2024. The instructions to (i) Self Certified Syndicate Bank ("SCSBs") for unblocking of funds in case of ASBA applications were given on November 23, 2024. The listing application was executed with BSE on 26th November, 2024. The credit of Equity Shares in dematerialized form to respective demat accounts of Allottees has been completed with NSDL and CDSL on 26th November, 2024. No physical shares were allotted in the Rights issue. Pursuant to the listing and trading approvals granted by BSE, the Equity Shares allotted in the Issue is expected to commence trading on BSE on or about 28th November, 2024. In accordance with SEBI circular dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlement has been sent to NSDL & CDSL on 26th November, 2024.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: It is to be distinctly understood that the Submission of LOF to SEBI should not in any way be deemed or construed that SEBI has cleared or approved the LOF. The Investors are advised to refer to the full text of the "Disclaimer Clause of SEBI/" beginning on page 108 of the LOF.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of BSE" beginning on page 108 of the LOF.

Purva Sharegistry (India) Private Ltd. CIN: U67120MH1993PTC074079

Unit no. 9, Shiv Shakti Ind. Estt. J. R. Boricha Marg. Lower Parel (E) Mumbai 400 011. Telephone: +91 22 4961 4132; Facsimile: +91 22 22 3570 0224

REGISTRAR TO THE ISSUE

Investor grievance e-mail: support@purvashare.com https://www.purvashare.com/

Contact Person: Ms. Deepali Dhuri;

Date: November 26, 2024

Place: Kolkata

SEBI Registration No.: INRO00001112

IGC INDUSTRIES LIMITED Registered office: 12 Government Place (East), 1st Floor Formerly Hemanta Basu

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

Sarani, Kolkata-400069 Telephone: 033-46021453; 8882864121

E-mail: igcfoils@gmail.com; Website: www.igcindustriesltd.com

Contact Person: Mr. Arpit Jain., Company Secretary & Compliance Officer

Investor may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving complete details such as name, address of the Applicant, contact number(s), e-mail address of the sole/ first holder, folio number or demat account, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Form, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE RIGHTS EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

FOR IGC INDUSTRIES LIMITED

SALMAN MAHIBUB SAYYAD Managing Director

DIN: 09837263

The LOF is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the Stock Exchanges i.e., BSE Limited at www.bseindia.com, the Company at wwi.iqcindustriestid.com, the Registrar at https://www.purvashare.com and Investors should note that investment in equity shares involves a degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk

The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been, and will not be, registered under the U.S Securities Act and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Rights Entitlements (including their credit) and the Rights Equity Shares are only being offered and sold outside the United States in "offshore transactions" as defined in and in reliance on Regulation § under the U.S. Securities Act to Eligible Equity Shareholders located in jurisdictions where such offer and sale is permitted under the laws of such jurisdictions. There will be no public offering in the United States.

M&M drives in premium EV models starting ₹18.9 lakh

SWARAJ BAGGONKAR Chennai, November 26

MAHINDRA & MAHINDRA (M&M) on Tuesday launched two premium electric vehicles, BE 6e and XEV 9e at ₹18.9 lakh and ₹21.9 lakh (ex-showroom), respectively. These two EVs are first of the five 'born electric' vehicles developed by the Mumbai-based automaker. Bookings will open in January followed by deliveries in the February to March period.

The prices are introductory and do not include charger or charger installation costs. The indicative on-road price in Chennai of the BE 6e is ₹20.36 and ₹23.59 lakh of the XEV 9e. These new Mahindra models will compete against the Tata Curvv.ev, MG ZS EV and BYD Atto 3.

M&M is targetting the utility vehicle (UV) market whose on-road price is around ₹20 lakh. Born electric vehicles are those which are developed as electric vehicles from the start and not as petrol or dieselpowered vehicles. The ₹20-25 lakh category vehicles are Toy-



The new XEV 9e (above) models will compete against Tata Curvv.ev, MG ZS EV and BYD Atto 3. The carmaker also launched the BE 6e model

ota Innova Hycross, Maruti Suzuki Invicto, Jeep Compass. Rajesh Jejurikar, executive

director, M&M said, "There is a reasonably large market for UVs priced at ₹21.7 lakh on road. Today we are announcing just one pack and more packs will be announced closer to launch."

The firm has created an additional production space of 10,000 units a month for these two EVs. Both BE 6e and XEV9e will get two battery packs of 79 kWh and 59 kWh. The ARAI certified range of the BE 6e is 682 km while that of the XEV 9e is 656 km on the 79 kWh battery pack. The WLTP range of the BE 6e is 550km and of the XEV 9e is 533km for the 79 kWh battery pack.

been tested for more than 55 lakh kms. The LFP battery has been tested for water leakage. thermal runaway and vibra tions. While the battery pack is done by M&M in-house, cells are imported by the firm.

M&M claimed that the battery has been tested for 14,577 presently has only the XUV 400 hours while the vehicle has in the market.

M&M is the third largest EV maker in India behind market leader Tata Motors and ISW MG Motor India. The firm

Ola launches Gig, S1 Z e-scooters starting ₹39,999

FE BUREAU Chennai, November 26

OLA ELECTRIC LAUNCHED the 'Ola Gig' scooter variant on Tuesday, targetting gig workers and last-mile delivery services, with prices starting at ₹39,999.

To make electric mobility more accessible to a wider audience, the Ola Gig comes in two versions: the standard Ola Gig with a top speed of 25 kmph priced at ₹39,999 and the Ola Gig+ (top speed of 45 kmph) at ₹49,999. The Ola Gig is designed for short-range, last-mile deliveries, while the Ola Gig+ caters to longer distances and heavier payloads.

Ola also expanded its S1 lineup with the introduction of two new models under the Ola 'S1 Z series'. The standard Ola S1 Z (with a removable 3kWh battery) is priced at an introductory ₹59,999. In addition, Ola unveiled the S1 Z+, designed for both personal and light commercial use, priced at ₹64,999.

Ola already has X, Pro and Air versions of S1 scooters priced between ₹69,999 to ₹1,34,999.

While launching the new models, Bhavish Aggarwal, chairman and managing director of Ola Electric Mobility, said: "From gig workers to

financialexp.epapr.in

BHAVISH AGGARWAL CMD, OLA ELECTRIC FROM GIG WORKERS

TO STUDENTS. YOUNG PROFE-SSIONALS & SMALL BIZ OWNERS. GIG & S1 Z RANGE **REDEFINE WHAT'S POSSIBLE** IN EVs

WITH AFFOR-DABILITY

students, young professionals, and small business owners, the Ola Gig and Ola S1 Z range redefine what's possible in EVs with affordability."

All these models come with a removable battery 'Ola PowerPod,' which doubles as a home inverter, capable of powering small household appliances, lights, fans, and other essential devices. Reservations for the new models start at ₹499, with deliveries beginning in April 2025.

Shares of Ola Electric closed 5% higher on NSE at ₹73.15.

Nikhil Kamath-backed media-tech firm rolls out smart TV service

URVI MALVANIA Mumbai, November 26

MEDIA-TECH FIRM STREAM-BOX Media — founded by Anuj Gandhi and backed by Micromax Informatics, along with Nikhil Kamath and Stride Ventures — has unveiled Dor, a subscription-based smart television service that combines premium hardware with content from multiple OTT platforms.

The "product-as-a-service" offering, as the company describes it, includes hardware in the form of a television screen which runs on its operating system, and an AI-enabled content platform that has content from

nearly 24 OTT apps, and multiple linear channels. The content across apps can be accessed through a single login, under one single monthly subscription.

The bundled service is similar to smartphone-telecom ser vice provider bundling which is prevalent in markets other than India. The hardware is available for a discounted rate as part of a subscription contract for a fixed tenure. In this case, the TV screen will get locked if the monthly subscription to the service is not paid. Micromax is the majority shareholder in the venture, though the investment figures and exact shareholding have not been disclosed.

ASCI: Realty sector most exploitative of ad norms

RAGHAV AGGARWAL New Delhi, November 26

REAL ESTATE EMERGED as the sector with the highest exploitations of advertising norms between April and September this year, according to the Advertising Standards Council of India (Asci).

In its "Half-Yearly Complaints Report 2024-25", the self-regulatory body said that of all the 3031 ads investigated,

estate sector alone. It was followed by 29% ads from illegal betting and 8% from the healthcare sector. Asci said that for the real

around 34% were from the real

estate sector, 1,027 ads were shortlisted and sent to the Maharashtra Real Estate Regu latory Authority (MahaRERA) for review. "99% of the ads shortlisted were found to be in violation of the MahaRERAAct,' it said.

जनसता

FINSEW

बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड कार्पोरेट कार्यालय : सेरेब्रम आईटी पार्क बी-2 बिल्डिंग, 5वां तल, कल्याणी नगर, पुणे, महाराष्ट्र-411 014 शाखा कार्यालय : 14वां तल, अग्रवाल मेट्रो हाइट्स, नेताजी सुभाष पैलेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की

धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना अधोहस्ताक्षरी मैसर्स बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा निम्नलिखित सूचना कर्जदार(रों)/ सह–कर्जदार(रों) को जारी कर रहा है, जो अपनी देयता का निर्वहन करने में असफल रहे हैं अर्थात बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड द्वारा उनको सम्पत्ति के ऐवज में दिए गए आवास ऋण(णों) / ऋण(णों) के मुलधन और उसपर उदभुत ब्याज एवं अन्य प्रभारों के प्रतिभुगतान में असफल रहे हैं और उसके परिणामस्वरूप ऋण अनार्जक आस्ति हो गए हैं। तदनसार उनको वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की 13 (2) और उनके नियमों के तहत सचनाएं. उनके अंतिम ज्ञात पते पर. जारी की गई थीं। तथापि वे बिना सपर्देगी / बिना तामील वापस प्राप्त हो चकी हैं, अतः कर्जदार(रों) / सह–कर्जदार(रों) को इस प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे उनके द्वारा समय समय पर प्राप्त की गई ऋण सुविधाओं के तहत बकाया रशियों का भूगतान करें।

-		
ऋण खाता संख्या/कर्जदार(रों)/ सह–कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) का नाम एवं पता	प्रतिभूत / बंधक अचल आस्ति / प्रवर्तित की जाने वाली सम्पत्ति का पता	मांग सूचना तिथि एवं राशि
शाखा : दिल्ली (एलएएन नंबर 401HFW77690762 एवं 401HSL77619082 एवं 401TSH77619091) 1. एकता (कर्जदार) पता : वी 55, द्वितीय तल, राजौरी गार्डन, वेस्ट दिल्ली—110027	निम्न वर्णितानुसार गैर-कृषि भूमि सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : राजस्व सम्पदा ग्राम पल्ला, तहसील और जिला फरीदाबाद में आवासीय कालोनी अशोक एन्क्लेव एक्सटेंशन—।।, फरीदाबाद में प्लॉट नंबर सी—89 पर भूमि और निर्मित सम्पत्ति के भू तल पर फ्लैट, छत और टेरेस का अधिकार नहीं, फ्रंट और रियर लॉन अधिकार तथा पानी और प्लम्बंग व्यवस्था, टी.वी. ऐंटीना इत्यादि की जांच और रखरखाव के अधिकार सहित तथा कॉमन स्टेयर केसेज और कॉमन पैसेज के उपयोग के साझा अधिकार सहित, तथा भूमि में यथानुपात हिस्सा।	14—11—2024 फ. 55,98,462/— (रूपए पचपन लाख अठ्ठानवे हजार चार सौ बासठ मात्र)
शाखा : दिल्ली (एलएएन नंबर 401HSLEI274843) 1. सीमा यादव (कर्जदार) पता : जी 1/122, निकट डीडीए नर्सरी पार्क, सेक्टर—16,	निम्न वर्णितानुसार गैर–कृषि भूमि सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : डीडीए निर्मित फ्रीहोल्ड फ्लैट नंबर 557, चतुर्थ तल, पाकेट जीएच–3, साई नाथ अपार्टमेंट, एलआईजी कैटेगिरी के अंतर्गत, क्षेत्रफल परिमाप 42.0 वर्ग मीटर, सेक्टर–28, स्थित : रोहिणी	13-11-2024 फ. 19,80,423/- (रूपए उन्नीस लाख अस्सी हजार चार सौ

यह कदम सूचना की वैकल्पिक तामील हेतु उठाया जा रहा है। उपरोक्त कर्जदारों तथा/अथवा सह-कर्जदारों/गारंटरों को सलाह दी जाती है कि वे बकाया राशि का भूगतान भावी ब्याज के साथ इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर कर दें, जिसमें असफल रहने पर वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार प्रतिभृति आस्ति / बंधक सम्पत्ति का कब्जा लेने हेत् आगे कार्यवाहीं (बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के पास उपलब्ध अन्य अधिकार उपायों को प्रतिकूल प्रभावित किए बगैर) की जाएगी।

आवासीय स्कीम, दिल्ली-110042, पूरब : रोड, पश्चिम : रास्ता,

उत्तर : फ्लैट नंबर 560, दक्षिण : फ्लैट नंबर 544

उपरोक्त नामक पार्टियों को उपरिवर्णित सम्पित्तियों को हस्तांतरित नहीं करने, उनमें तृतीय पक्ष हित सृजित नहीं करने की सलाह भी दी जाती है, जिन पर कि बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड का प्रभार है।

तिथि : 27-11-2024 स्थान :- दिल्ली / एनसीआर



रोहिणी, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली–110089

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-26 कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) (उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

कार्यालय :- 3/14. विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 प्रधान कार्यालय :- टी.सी.-38-वी. विभृति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226002

Visit us at: www.cdsupjn.org e-mail: pmunit26@gmail.com निविदा सूचना सं० : 1006/जी-10/104 दिनांक: 25.11.2024

ई-निविदा सूचना

अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम, की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में माडर्न रिकार्डिंग स्टूडियो का निर्माण कार्य अनुमानित लागत रू० 154.92 लाख (जी॰एस॰टी॰ रहित एवं लेबर सेस सिंहत) हेतु सी॰एण्ड डी॰एस॰ में यथोचित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 23.12.2024 के अपरान्ह 04:00 बजे तक ई-निविदाएं आमन्त्रित की जाती हैं। उक्त कार्य हेतु ई-निविदा प्रपत्र दिनांक 26.11.2024 से दिनांक 23.12.2024 के मध्य उत्तर प्रदेश सरकार की e-procurement वेबसाइट https://etender.up.nic.in से डाउनलोड किये जा सकते है तथा ई-निविदा दिनांक 24.12.2024 को अपरान्ह 02:00 बजे कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, युनिट-26, सी०एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ में निविदा खोली जायेगी। ई-निविदा प्रपत्र का मूल्य रू० 10000.00+GST (18%)

निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण विभाग की बेवसाइट www.cdsupjn.org एवं प्रोक्योमेन्ट पोर्टल https://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है। समस्त शुद्धि पत्र (Corrigendum) https://etender.up.nic.in पर ही अपलोड किये जॉयगे, इनका पथक से कोई प्रकाशन नहीं किया जायेगा। निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वे उक्त वेबसाईट का समय-समय पर अवलोकन करते

> हस्ता./-परियोजना प्रबन्धक



अतिरिक्त देय होगा।

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः 09, कम्युनिटी सेंटर, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली 110057, शाखा कार्यालय : कार्यालय सं. 7, कम्युनिटी सेंटर, बसन्त लोक, वसन्त

विहार, नई दिल्ली-110057 सार्वजनिक सूचना (अचल संपत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी)

[प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत]

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभतिकरण और पनर्गठन तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम. 2002 के तहत

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभृत लेनदार) के पास बंधक अचल संपत्ति की बिक्री हेतु सचना एतद्वारा आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटर(रों) या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों को नोटिस दिया जाता है कि प्रतिभृत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, जिनका कब्जा हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभृत लेनदार) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा ले लिया गया है, नीचे उल्लिखित कर्जदारों, सह-कर्जदारों अथवा जमानितयों से बकायों की वस्ली के लिए 31 दिसम्बर, 2024 (ई-नीलामी तिथि) को ''जैसा है जहां है'', ''जो है यही है'' और ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर बेचा जाएगा। आरक्षित मृल्य और जमा धरोहर राशि नीचे उल्लिखित है। सार्वजनिक नीलामी में भाग लेने के लिए ईएमडी के डिमांड ड्राफ्ट वाले सीलबंद लिफाफे को हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी के पास 30 दिसम्बर, 2024 को शाम 5 बजे तक शाखा कार्यालयः कार्यालय सं. 7, कम्युनिटी सेंटर, बसन्त लोक, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057 में जमा करना होगा।

ऋण खाता सं.	कर्जदार(रों)/सह- कर्जदार(रों)/जमानती(यों)/ विधिक उत्तरिधकारी /विधिक प्रतिनिधि के नाम	मांग सूचना की तिथि तिथि तक राशि	कब्जे का प्रकार (रचनात्मक/ भौतिक कब्जे के तहत)	आरक्षित मूल्य	जमा धरोहर राशि
HHFDELHOU 20000007628	मोहित कुमार, रेशमा पुत्र बनारसी दास	18/03/2024 रु. 23,11,8227- तिथि 26/11/2024	(भौतिक)	रु. 18,50,000∕ -	रू. 1,85,000∕-

संपत्ति का विवरण: तीसरी मंजिल, सामने की ओर (बाएं हाथ की ओर का भाग) छत/टेरेस के अधिकार के साथ निर्मित संपत्ति, प्लॉट संख्या 36-ए, प्राइवेट यूनिट संख्या 116, 50 वर्ग गज, यानी 41.81 वर्ग मीटर, कुल क्षेत्रफल में से 200 वर्ग गज, खसरा संख्या 105/10 में से, गांव पालम, दिल्ली राज्य की राजस्व संपदा में स्थित, आबादी क्षेत्र जिसे कॉलोनी विश्वास पार्क, ई-ब्लॉक, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 के नाम से जाना जाता है, आनुपातिक अधिकारों के साथ स्टिल्ट क्षेत्र में एक सामान्य बाइक

पाकिंग स्थान क सा	य सामाएः उत्तरः अन्य का सपा	त्त, पूर्वः गला १७ फाट, दार	प्तणः अन्य का सप	ात्त, पाश्चमः सङ्	क 10 फाट
HHFNSPHOU 20000009877	इशान रावल, उर्वशी यादव, अनिल रावल	24/01/2024 रु. 25,68,923/- तिथि 26/11/2024	(भौतिक)	रू. 21,60,000∕ -	रू. 2,16,000/-
	0 0 0 0 0		, ,		

संपत्ति का विवरण: निर्मित द्वितीय तल. बिना छत/टेरेस अधिकार के. सामने के मध्य भाग की ओर, निजी संख्या 1208, सुपर एरिया माप 60 वर्ग गज, (50.16 वर्ग मीटर), कुल भूमि क्षेत्र माप 166 वर्ग गज में से, निर्मित संपत्ति में से, प्लॉट संख्या 86/1, और 86/2 पर निर्मित, खसरा संख्या 385 में से, गांव नवादा, माजरा हस्तसाल, कॉलोनी एल-एक्सटेंशन, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059, स्टिल्ट फ्लोर पर एक छोटी कार पार्किंग की जगह के साथ, सामान्य पार्किंग क्षेत्र में सामान्य पार्किंग अधिकारों के साथ, उक्त संपत्ति का रोटेशनल आधार पर। निम्नानुसार सीमा:- पुर्वः प्लॉट संख्या 86/2,/गली 10 फीट, पश्चिमः अन्य मंजिल संख्या 1209/सड़क 20 फीट, दक्षिण:- प्लॉट

संख्या ८५ उत्तरः र	नड़क 20 फीट।				
HHFNOIHOU2 2000022706 & HHFNOILAP 22000023080	तुषार शर्मा, ममता पुत्र मुंशी लाल शर्मा, अंजली पत्नी तुषार शर्मा, आशु शर्मा	13/03/2024 रु. 29,63,486/- तिथि 26/11/2024	(भौतिक)	रू. 30,00,000∕ -	रू. 3,00,000∕-

संपत्ति का विवरणः छत और टेरेस अधिकारों के बिना निर्मित दूसरी मंजिल, 55.28 वर्ग मीटर (66.11 वर्ग गज) माप क्षेत्र, संपत्ति संख्या 1/11202, प्लॉट नंबर ई -39, खसरा नंबर 6 का हिस्सा है, साथ में छत स्तर तक अधिकारों के साथ वहां पर निर्मित निर्माण, सामान्य प्रवेश द्वार, सीढ़ियां, लिफ्ट (एलेवेटर) और भूतल से मार्ग के साथ, पानी की टंकी के रखरखाव के लिए शीर्ष मंजिल पर जाने के सामान्य अधिकारों के साथ, स्टिल्ट फ्लोर पर एक स्कृटर पार्किंग के साथ, संपत्ति के तहत जमीन के आनपातिक स्वामित्व अधिकारों के साथ, गली नंबर 12, सभाष पार्क, नवीन शाहदरा की आबादी में स्थित, गांव उल्धनपुर, इलाका, शाहदरा, दिल्ली -110032 के क्षेत्र में सीमाएं : पूर्व : रोड 20 फीट चौड़ा (गली नं. 12), दक्षिण:- संपत्ति नं. 1/11204, उत्तर: - प्लॉट नं. 1/11202 का हिस्सा, पश्चिम:

- अन्य सपात्त										
HHFNSPHOU 20000011349	शिवानी पत्नी दिनेश सोनी, रवि कुमार सोनी, मोनिकांत कुमार	15/02/2024 रु. 22,15,115/- तिथि 26/11/2024		रू. 16,50,000∕ -	रु. 1,65,000∕-					
संपत्ति का विवरण: आवासीय फ्लैट का समस्त भाग, प्रथम तल पर स्थित है, सामने की ओर उत्तरी भाग बिना छत के अधिकार के पूर्वों नंतर १२ एम निर्मित क्षेत्राचल ६०,०० तुर्ग गान राजी ४१,०० तुर्ग गीरर जाएगा नंतर २०१ में मे										

गांव नवादा माजरा हस्तसाल, दिल्ली राज्य में स्थित, विपिन गार्डन, नॉर्थ ब्लॉक, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 नामक आबादी में। कॉमन एरिया में एक बाइक पार्किंग स्पेस शामिल है, साथ ही टाइटल डॉक्यूमेंट में लिखी गई सभी कॉमन सुविधाएं भी। सीमाः उत्तर-रोड, पूर्वः अन्य भूमि, पश्चिम-अन्य प्लॉट नंबर 90, दक्षिण-पीछे की मंजिल/गली 08 फीट कुआसर भुट्टो, 14/12/2023 19000003732 12,50,000/ 1,25,000/-जुल्फिकार भुट्टो ₹. 15,71,375/-

तिथि 26/11/2024 **पंपत्ति का विवरण:** भतल बिना छत के अधिकार के संपत्ति संख्या 75 पर निर्मित क्षेत्रफल 50 वर्ग गज खसरा संख्य 26/9 से 1.8.41.805 वर्ग मीटर, गांव डाबरी, दिल्ली राज्य दिल्ली, डाबरी एक्सटेंशन मेन, नई दिल्ली के क्षेत्र में स्थित, मुख्य प्रवेश, मार्ग, भूतल से शीर्ष मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियों के सामान्य/संयुक्त अधिकारों के साथ, नीचे की भूमि के सभी आनपातिक अविभाजित, अविभाज्य और निष्पक्ष मक्त अधिकार। सीमाः उत्तरः गली 10 फीट, पर्वः संपत्ति संख्या 76, दक्षिणः अन्य प्लॉट, पश्चिमः संपत्ति संख्या 76

नियम एवं शर्तें : ई-नीलामी पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से 31 दिसम्बर, 2024 (ई-नीलामी की तिथि) को 2.00 बजे अप. के बाद 10 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ सम्पन्न होगी। इच्छुक क्रेता/बोलीदाताओं को ईएमडी राशि आरटीजीएस/एनईएफटी या डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से ''हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड'' के पक्ष में जमा करानी होगी। ईएमडी राशि ई-नीलामी के समापन के बाद असफल बोलीदाताओं को वापस कर दी जाएगी।

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें : 1. ई-नीलामी ''जैसा है जहां है'', ''जो है यही है'', ''जो कुछ भी है वहीं है'' और ''बिना किसी आश्रय'' के आधार पर आयोजित किया जा रहा है और इसे 'ऑनलाइन' आयोजित किया जाएगा। 2. बोली वृद्धि राशि रु. 15,000/- (रुपये पन्द्रह हजार मात्र) होगी। 3. ई-नीलामी मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के माध्यम से (हेल्पलाइन नंबर: 07961200576/544/594 15961 531/583/569, 6351896643 और ई-मेल support@auctiontiger.net/maulik.shrimali@auctiontiger.net) उनके वेब पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net पर आयोजित की जायेगी। 4. प्रतिभूत लेनदारों की जानकारी में संपत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। हालाँकि, इच्छक बोलीदाताओं को अपने बिल जमा करने से पहले, नीलामी में रखी गई संपत्ति के स्वामित्व और दावों/अधिकारों/बकाया/संपत्ति को प्रभावित करने के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। इस संबंध में, ई-नीलामी विज्ञापन किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता या हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और न ही इसे माना जाएगा। 5. प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकाया के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। बिक्री वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन होगी। ई-नीलामी के अन्य नियम और शर्तें निम्नलिखित वेबसाइटः www.herohousingfinance.com में प्रकाशित की गई हैं 6. संपत्ति के विवरण और संपत्ति देखने के लिए श्री इरशाद अली / ershad.ali@herohfl.com/ 8802270415 तथा शेखर सिंह/9711522275/ shekhar.singh@herohfl.com से संपर्क करें। 7. संभावित बोलीदाता पूर्व अपॉइंटमेंट के साथ 24 दिसम्बर, 2024 को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे के बीच संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं।

कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता को 30 दिनों की बिक्री सूचना

उपर्युक्त कर्जदार/बंधककर्ता/जमानती को एतद्वारा धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान नीलामी की तिथि से पहले ब्याज और व्यय के साथ करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई भी, आपसे ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) की

वेबसाइट वेबसाइट www.herohousingfinance.com पर लिंक https://uat.herohomefinance.in/hero housing/other-notice देखें। कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

अधिकृत प्राधिकारी, दिनांक: 27.11.2024 स्थानः दिल्ली/रा.रा.क्षे. श्री सुनील यादव, मो. 9818840495, ई-मेल : assetdisposal@herohfl.com

नाननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण, नई दिल्ली पीठ के समक्ष कॉर्न संख्या, आरएससी-4 [नियम ३(३) के अनुसार] कंपनी याचिका सं. 203 / 2024 निम्न के मामले में:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 88, 52 और अन्य लाबू प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (कंपनी की शेयर पूंजी में कमी की प्रक्रिया) नियम, 2016 के साथ पढ़े निम्न के मामले में:

सायरेंट्ज़ ग्लोबल गर्चेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

जिसका पंजीकृत कार्यालय : 103, प्रताप भवन बहादुर शाह जकर मार्ग, नई विल्ली -110002, भारत में है।"आवेदक कंपनी" वा "एसजीएमआईपीएस"

स्चना का प्रकाशन कृपवा ध्यान दें कि उपरोक्त कंपनी की शेवर पूंजी को आईएनआर

24,69,78,140 /- (वीबीस करोड़ उनसत्तर लाख अठडत्तर हजार एक सी चालीस रुपए) से कम करके आईएनआर 2,46,97,810/- (दो करोड़ कियालीस लाख सत्तानवे डजार आठ सौ दस रुपए) करने की पुष्टि के लिए 12 नवंबर 2024 को नई दिल्ली पीठ में ट्रिब्यूनल के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

व्यक्तिगत लेनदारों को सूचना जारी की गई है। कंपनी द्वारा 10 सितंबर 2024 को तैयार की गई लेनदारों की सूची कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 103, प्रताप भवन, बहादुर शाह जकर गार्ग, नई दिल्ली -110002, भारत और छठा तल, टॉवर 1, गुड अर्थ बे 1, सैक्टर 58, गुरूग्राम -122102, हरियाणा, भारत, में बुधवार, 27 नवम्बर, 2024 से मंगलवार, 10 दिसम्बर, 2024 तक सभी कार्य दिवसों पर प्रात: 11:00 बजे से अप. 4:00 बजे के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। यदि कंपनी के किसी लेनदार को आवेदन या लेनदारों की सूबी में विवरण

एवं उसके अधिकृत प्रतिनिधि के पते, यदि कोई हो, के बारे में विवरण कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 103, प्रताप भवन, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली -110002, भारत और छठा तल, टॉवर 1, गुढ अर्थ बे 1 सेक्टर 58, गुरूग्राम -122102, हरियाणा, भारत में इस सुबना की तिथि से तीन माह के मीतर नीचे अघोहस्तावारी को मेजा जा सकता है। यदि ऊपर बताए गए समय के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो कंपनी की शेयर पूंजी को कम करने के लिए उपरोक्त याचिका के तहत सभी कार्यवाहियों में लेनदारों की सूची में प्रविष्टियां सही मानी जाएंगी। यह भी ध्यान दिया जाना बाहिए कि गुरुवार, 09 जनवरी 2025 को सुनवाई तय की गई है जिस दिन अधिकरण आवेदन पर सनवाई करेगा। यदि कोई

लेनदार सुनवाई में माग लेने का इच्छुक है तो उसे अपनी आपत्तियाँ, यदि

पर कोई आपशि हैं, तो उसे (सहायक दस्तावेजों के साध) और उसके नाम

कोई हो, के साथ अनुरोध करना चाहिए। कृते एवं उनकी ओर से सायरेंट्ज़ ग्लोबल मर्चेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ERM./-गुलशन ग्रोवर

स्थानः मुखग्राम दिनांक 26.11.2024

सेन्ट्रल बेंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911 शाखा कार्यालयः ३/५, ईस्ट पटेल नगर, पटेल रोड, नई दिल्ली-110008 कब्जा सूचना (अवल सम्पत्ति के लिए)

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत

तेईस मात्र)

प्राधिकृत अधिकारी, बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पटेल नगर शाखा **नई दिल्ली** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) एवं 13(12) के अंतर्गत प्रदस्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 26/08/2024 निर्गत की थी जिसमें ऋणकर्ता: श्री नितिन भाटिया, को सूचना में अंकित राशि रु.12,88,716 /- (बारह लाख अठासी हजार सात सौ सोलह रूपये मात्र) (जो 26/08/2024 को देय मूलघन एवं ब्याज का प्रतिनिधित्व करता है), साथ ही उक्त सचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर उस पर 26 / 08 / 2024 से आज तक ब्याज एवं अन्य शुल्क के साथ चुकाने के लिए कहा गया था। चूंकि ऋणकर्ता बैंक की सम्पूर्ण निर्धारित बकाया देयराशियों का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा ऋणकर्ता, गारंटर तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यह इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 वे नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सम्पत्ति का कब्जा 25.11.2024 को ले लिया हैं। ऋणकर्ता एवं गारंटर को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का

शाखा, नई दिल्ली के प्रभार के भूगतान के अधीन होगा। कर्जदार का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में सरफेसी अधिनियम के अनुच्छेद 13 के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन रु.12,88,716 /- (बारह

लाख अठासी हजार सात सौ सोलह रूपये मात्र) (जो 26 / 08 / 2024 के

देय मूलधन एवं व्याज का प्रतिनिधित्व करता है), और उस पर 26 / 08 / 2024

से ब्याज एवं अन्य शुल्क के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पटेल नगर

अचल सम्पत्ति का विवरण सम्पत्ति का मालिकः श्री नितिन भाटिया

पताः खसरा नम्बर 171 में से, सम्पत्ति संख्या ए-191, गाँव बिन्दाप्र कॉलोनी जिसे नंद राम पार्क ब्लॉक-ए, उत्तम नगर नई दिल्ली-110059 के नाम से जाना जाता है।

विक्रय विलेख के अनुसार सम्पत्ति की सीमाएँ:-पूर्वः सम्पत्ति संख्या ए-190 पश्चिमः प्लॉट संख्या 191 का हिस्सा

उत्तरः सडक 10 फीट तिथि: 25/11/2024

स्थानः नई दिल्ली

दक्षिणः प्लॉट संख्या 191 का हिस्सा (प्राधिकत अधिकारी), सेंटल बैंक ऑफ इंडिया

एराया लाइफस्पेसेज लिमिटेड (पूर्व में जस्टराइड एंटरप्राइजेज लिमिटेड) सीआईएन : L74899DL1967PLC004704 पंजीकृत कार्यालय : बी–1, 34/1, विकास हाउस, विकास पथ मार्ग, पूर्वी पंजाबी बाग, दिल्ली 110026; ईमेल आईडी : cs@eraayalife.com; justridelimited@gmail.com

वेबसाइट : www.eranyalife.com

पोस्टल बैलट और ई-वोटिंग जानकारी की सूचना लददारा यह सबना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 110 के अनुसार कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और 22 के साथ पढ़ें, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है और ऐसे अन्य लागू कानूनों के अनुसार कंपनी ने 26 नवंबर 2024 को कंवल उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रोनिक मोड के माध्यम से 19 अक्टूबर, 2024 के पोस्टल बैलट नोटिस मेजे और मेजने का काम पूरा कर लिया है, जिनके ईमेल आईढी उनके दिपॉजिटरी प्रतिभागियों या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मैसर्स स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ

एराया लाइफररोसेज लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की मंजूरी दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टत

क. सं	प्रस्तावों का विवरन									
1.	कंपनी के निदेशक के रूप में श्री करण बग्गा (डीआईएन: 05357861) की नियुक्ति									
	कंपनी के निदेशक के रूप में श्री हिमाशु मोदी (डीआईएन: 00886830) की नियुक्ति									
9	wirth at assist Didwar at any if all Davin with (Daving Assessed) of David									

बांपनी के निदेशक—संघालन के रूप में श्री अरुण बजा (डीआईएन : 06500891) की नियुक्ति

6 कंपनी के निदेशक के रूप में डॉ. ऑमरा मैथ्यू (डीआईएन : 05203948) की नियुक्ति 6. कियनी के स्वतंत्र निर्देशक के रूप में डॉ. ऑमस मैध्यू (डीआईएन : 05203948) की नियुक्ति

7. कपनी के निदेशक के रूप में श्री दिवेक दवे (डीआईएन : 02665585) की नियुक्ति कंपनी के स्वतंत्र निवेशक के रूप में श्री विवेक दवे (डीआईएन : 02665585) की कंपनी के कंपनी के निदेशक के रूप में श्री दीपक सिंघल (ढीआईएन : 08375146) की नियुक्ति

10. कंपनी के रवतंत्र निवेशक के रूप में श्री दीपक शिंघल (डीआईएन : 08375146) की नियुक्ति

कॉरपीरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने जपने सामान्य परिपन्न संख्या सामान्य परिपन्न संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 के माध्यम से अपने सभी शेयरधारकों को ई-मेल द्वारा डाक मतपत्र नोटिस सहित नोटिस भेजने की समयसीमा 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी है। अतः यहां सूधनाओं तथा पोस्टल बैलेट पत्रों की वास्तविक प्रतियां नहीं भेजी जायेंगी।

सदस्यों के मतदान अधिकारों की गणना उनके द्वारा शुक्रवार, 22 नवंबर, 2024, जो इस उद्देश्य के लिए निर्धारित कट-ऑफ तिथि है, को कारोबारी समय समापा होने पर उनके द्वारा धारित इविवटी शेयरों पर

कंपनी ने सभी सदस्यों को ई-बोटिंग सुविधा प्रदान करने वे लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की सेवाएं ली हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि ई-वोटिंग बुधवार, 27 नवंबर, 2024 (सुबह 9:00 बजें) से शुरू होगी और मुख्यार, 26 दिसंबर, 2024 (शाम 5:00 बजें) को समाप्त होगी, प्रसक्ते बाद ई-वॉटिंग मॉखवूल निष्क्रिय हो जाएगा। कंपनी के निदेशक मंडल ('बोर्ड') ने मैसर्स कुमार जी एंड कंपनी, कंपनी सचिव को निष्पश्च और पारदर्शी

तरीके से दूरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से ठाक मतपत्र आयोजित करने के लिए स्कृटिनाइजर ("स्कृटिनाइजर") के रूप में नियुक्त किया है। पोस्टल बेलट नोटिस कंपनी की वेबसाइट यानी www.eraayalife.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर और रटॉक एक्सचेंज की वेबसाइट

अर्थात बीएसई लिमिटेड पर भी चपलब्द है, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध है। पोरटल बैलेट का परिणाम उस स्टॉक एक्सचेंज पर शुक्रवार 27 दिसंबर 2024 को अथवा इससे पूर्व कार्यपालक निवेशक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा घोषित किया जायेगा, जडा कंपनी कं शेयर्स सूचीबद्ध हैं तथा इन्हें स्कृटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट यानी www.eraayalife.com और सिक्योरिटीज ढिपॉजिटरी लिमिटेड की वैबसाइट

www.evoting.nsdl.com पर प्रदर्शित किया जायेगा। जिन सदस्यों ने अभी तक अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि किसी भी प्रश्न को लिए सीधे कंपनी / आरटीए को ई-मेल मेजकर अपना ई-मेल पता बताएं, आप शेवरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने बाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वॉटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका www.evoting.nsdl.com से डाउनलोड करके देख सकते हैं या 022-4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध नेज सकते हैं।

कृते एराया लाइफस्पेसेज लिमिटेख (पूर्व में जस्टराइव एंटरप्राइजेज लिमिटेड) स्थान : दिल्ली वसुषा अग्रवाल दिनोंक : 27 नवंबर, 2024 कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी

जेपी इन्फ्राटेक लिभिटेड पंजीकृत कार्यालय : सेक्टर-128, नोएडा-201304, उ.प्र.,

सीआईएन : एल45203यूपी2007पीएलसी033119 दरभाष: 91 (120) 4609000, 2470800, ईमेल : jpinfratech.investor@jilindia.in, वेबसाइटः www.jaypeeinfratech.com,

豖.	विवरण	एकल परिणाम				समेकित परिणाम			
सं.			समाप्त तिमाई	ì	समाप्त वर्ष		समाप्त तिमार्ह	1	समाप्त वर्ष
		30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023	30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023
		(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1	परिचालनों से कुल आय	22,286	22,931	27,683	91,195	22,256	29,775	35,792	1,24,395
2	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर एवं आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	8,520	(14,264)	(55,118)	(1,90,710)	8,820	(16,632)	(58.831)	(1,99,135)
5	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	8,820	4,19,345	(55,118)	2,42,879	8,820	4,50,425	(58.831)	2,67,922
	कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	8,820	4,11,757	(66,118)	2,35,291	8,829	4,42,837	(58.831)	2,60,334
	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर उपरांत) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरांत) से समाविष्ट]	8,821	4,11,762	(55,118)	2,35.295	8,821	4,42,825	(58,820)	2,60,331
,	प्रदत्त समता अंश पूंजी (अंकित मूल्य रु. 10/- प्रत्येक का) अन्य समतायें (पूर्ववर्ती वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र में	14	14	1,38,893	34	14	14	1,38,893	14
	निदर्शितानुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षित छोड़कर) आय प्रति अंश (रु. 10/— प्रत्येक का) परिचालनरत् तथा			- 27	10,36,599	145	-	(%)	10,35,550
	अपरिचालित परिचालनों हेतु (अवार्षिकीकृत) : —मूलभूत (रु. में) —तरलीकृत (रु. में)	1.63 1.63	35.40 35.40	(3.97)	17.65 17.65	1.53	38.07 38.07	(4.24) (4.24)	19.50 19.50

DIN: 09164881

उपर्युक्त साराँश, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दर्ज 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित एकल वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक साराँश है। दिनांक 30 जून 2023 को समाप्त तिमाही के उपर्युक्त परिणामों का पूर्ण प्रारूप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वेबसाइट (www.nseindia.com), बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट (www.bseindia.com) तथा साथ ही कम्पनी की वेबसाइट (www.jaypeeinfratech.com) पर उपलब्ध है। सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमावली 2015 के विनियम 52(4) में संदर्भित मद, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को भेजे गए हैं और कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

कम्पनी के एकल परिणामों में केवल एक ही खंड अर्थात् यमुना एक्सप्रेसवे प्रॉजेक्ट, एक एकीकृत तथा अविभाजनीय परियोजना शामिल है, जिसमें अन्य बातों के अलावा यमुना एक्स्प्रैसवे का निर्माण, प्रचालन तथा रखरखाव तथा एक्स्प्रेसवे से लगे 25 मिलियन वर्ग मी. भृमि के विकास के अधिकार शामिल हैं।

कंपनी ने निजी तौर पर रखे गए और पूरी तरह से एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा धारित गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों ("एनसीडी") की श्रृंखला जारी की थी, जो वर्तमान मे बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं। समाधान योजना को मंजूरी देने वाले माननीय एनसीएलटी के आदेश के अनुसार, एनसीडी के संबंध में देयता को सहमित देने वाले संस्थागत वित्तीय लेनदारों को समाधान योजना में दिए गए उपचार के अनुसार निपटाया जाएगा और बकाया एनसीडी समाप्त हो जाएंगे और उक्त एनसीडी को बीएसई लिमिटेड से हटा दिया जाएगा। कंपनी इसी प्रक्रिया में है। सेबी (सुचीबद्धता और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 52 (4) में संदर्भित अन्य लाइन आइटम के लिए, स्टॉक एक्सचेंज (ओं) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज

ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) और बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) को प्रासंगिक प्रकटीकरण किए गए हैं और यह कंपनी की वेबसाइट (www.jaypeeinfratech.com) पर भी उपलब्ध है।

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के आंकडे 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के समीक्षित आंकडों और 31 दिसंबर, 2023 तक प्रकाशित वर्ष–दर–वर्ष के आंकडों के बीच

3 पिछली तिमाहियों/वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान तिमाही/वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप बनाने के लिए जहां भी आवश्यक हो, पुनः तैयार/पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है

जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड हेतू तथा उसकी ओर से देवाँग प्रवीण पटेल आलोक दवे प्रबंध निदेशक तथा सीईओ दिनांक : 14 नवंबर 2024 मुख्य वित्तीय अधिकारी

डीआईएन : 06645714 स्थान : नोएडा

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for an offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated October 15, 2024 (the "Letter of Offer' or "LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI').

IGC INDUSTRIES LIMITED

(Formerly known as IGC Foils Limited)

Corporate Identification Number: L01100WB1980PLC032950

Our Company was originally incorporated as Maxwell Traders & Exporters Limited under the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Kolkata and consequently a certificate of incorporation dated August 26, 1980. Later, the name of the company was changed from "Maxwell Traders & Exporters Limited" to "IGC Foils Ltd" vide fresh certificate of incorporation consequent upon change of name "ROC letter no NCR/CN/329500/19/5/98". Subsequently the name of the Company was changed from "IGC Foils Ltd" to its presen name "IGC Industries Limited" vide fresh certificate of incorporation consequent upon change of name dated October 03, 2017"

> Registered Office: 12 Government Place (East), 1st Floor Formerly Hemanta Basu Sarani, Kolkata-400069 Tel. NO.: 033-46021453; 8882864121 E-mail: igcfoils@gmail.com; Website: www.igcindustriesltd.com; Contact Person: Arpit Jain, Company Secretary and Compliance Officer

RIGHT ISSUE OF UPTO 3,24,80,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF \$10.00 EACH ("EQUITY SHARES" OR "RIGHTS EQUITY SHARES) OF OUR COMPANY FOR

CASHAT APRICE OF ₹13.00 PER RIGHTS EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹3.00 PER RIGHTS EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹4222.40 LAKH ("THE ISSUE") ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF TWENTY NINE (29) RIGHT EQUITY SHARE FOR EVERY TWO (2) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ON THE RECORD DATE, THAT IS OCTOBER 18, 2024 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 118 OF THIS LETTER OF OFFER. fully subscribed

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company thanks all its shareholders and investors for their response to the Company's Rights Issue of Equity Shares, which opened for subscription on Monday, November 04, 2024 and closed on Monday, November 18, 2024 and the last date for On Market Renunciation of Rights Entitlements was Tuesday, November 12, 2024. Out of the total 228 Applications for 12377944 Rights Equity Shares, 314 Applications for 1276044 Rights Equity Shares were rejected on grounds of "technical reasons" as disclosed in the Letter of Offer, The total numbers of valid applications were 1105 for 48558278 Rights Equity Shares, which was 149.50% of the number of Rights Equity Shares allotted under the Issue. Our Company in consultation with Registrar to the Issue and BSE Limited, the Designated Stock Exchange on November 22, 2024, approved the allotment of 3,24,80,000 fully paid -up Rights Equity Shares to the successful applicants. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. All valid applications have been considered for

The break-up of valid Applications received through ASBA (after technical rejections) is given below:

Cagteory	Number of Equity Shares Allotted - against REs (including ASBA applications) received	Number of Equity Shares Allotted - Against valid additional shares	Total Equity Shares Allotted
	Number	Number	Number
Eligible Equity Shareholders	5188272	2892477	8080749
Renouncees	1466439	22932812	24399251
Total	6654711	25825289	32480000

Information regarding total Applications received (including ASBA applications received):

Category	Gross			Less: Rejections/Partial Amount			Valid		
Category	Applications	Shares	Amount (₹)	Applications	Shares	Amount (₹)	Applications	Shares	Amount (₹)
Eligible Equity Shareholders	632	8213142	106770846.00	2	132393	1721109.00	630	8080749	105049737.00
Fraction	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Renouncees	476	40477539	526208007.00	1	10	130.00	475	40477529	526207877.00
Not a eligible equity shareholders of the company	311	1143641	14867333.00	311	1143641	14867333.00	0	0	0.00
Total	1419	49834322	647846186.00	314	1276044	16588572.00	1105	48558278	631257614.00

Intimations for Allotment, Refund / Rejections Cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, has been completed October 31, 2024. The instructions to (i) Self Certified Syndicate Bank ("SCSBs") for unblocking of funds in case of ASBA applications were given on November 23, 2024. The listing application was executed with BSE on 26th November, 2024. The credit of Equity Shares in dematerialized form to respective demat accounts of Allottees has been completed with NSDL and CDSL on 26th November, 2024. No physical shares were allotted in the Rights issue. Pursuant to the listing and trading approvals granted by BSE, the Equity Shares allotted in the Issue is expected to commence trading on BSE on or about 28th November, 2024. In accordance with SEBI circular dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlement has been sent to NSDL & CDSL on 26th November, 2024.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: It is to be distinctly understood that the Submission of LOF to SEBI should not in any way be deemed or construed that SEBI has cleared or approved the LOF. The Investors are advised to refer to the full text of the "Disclaimer Clause of SEBI/" beginning on page 108 of the LOF.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of BSE" beginning on page 108 of the LOF.

REGISTRAR TO THE ISSUE Purva Sharegistry (India) Private Ltd.

CIN: U67120MH1993PTC074079 Unit no. 9, Shiv Shakti Ind. Estt. J. R. Boricha Marg. Lower Parel (E) Mumbai 400 011. Telephone: +91 22 4961 4132; Facsimile: +91 22 22 3570 0224

Investor grievance e-mail: support@purvashare.com https://www.purvashare.com/ Contact Person: Ms. Deepali Dhuri; SEBI Registration No.: INRO00001112

Date: November 26, 2024

Place: Kolkata

IGC INDUSTRIES LIMITED

Registered office: 12 Government Place (East), 1st Floor Formerly Hemanta Basu Sarani, Kolkata-400069 Telephone: 033-46021453; 8882864121

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

E-mail: igcfoils@gmail.com;

Website: www.igcindustriesltd.com; Contact Person: Mr. Arpit Jain., Company Secretary & Compliance Officer

Investor may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post-Issue related matters. All grievances relating

to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving complete details such as name, address of the Applicant, contact number(s), e-mail address of the sole/ first holder, folio number or demat account, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Form, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE RIGHTS EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

FOR IGC INDUSTRIES LIMITED

SALMAN MAHIBUB SAYYAD

Managing Director DIN: 09837263 The LOF is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the Stock Exchanges i.e., BSE Limited at www.bseindia.com, the Company at www.igcindustriestid.com, the Registrar at

Factors" beginning on page 24 of the LOF. The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been, and will not be, registered under the U.S Securities Act and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws, Accordingly, the Rights Entitlements (including their credit) and the Rights Equity Shares are only being affered and sold outside the United States in "offshore transactions" as defined in and in reliance on Regulation § under the U.S. Securities Act to Eligible Equity Shareholders located in jurisdictions where such offer and sale is permitted under the laws of such jurisdictions. There will be no public offering in the United States.

https://www.purvashare.com and Investors should note that investment in equity shares involves a degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk

Name Change

,MEGHA CHOWDHURY, DAUGH

TER OF UTTAM CHOWDHURY, RE-

SIDING AT 24A, AVENUE EAST MODERN PARK, SANTOSHPUR, PS

SURVEY PARK, KOLKATA - 700075

WEST BENGALSHALL HENCE

FORTH BE KNOWN AS MEGGHA

CHOWDHURY VIDE AN AFFIDAVIT

SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON

18/11/2024.THAT MEGHA CHOWD-

HURY AND MEGGHA CHOWDHURY

BOTH ARE THE SAME AND ONE

Name Change

, Archana Devi (old name) wife of Am-

rendra Kumar, residing at 191, Sreer-

ampur Road, North Garia, Kolkata-

700084, P.S.- Patuli, West Bengal

INDIA, have changed my name and

shall henceforth be known as Archana

Kumari (new name) as declared be-

fore the Ld. 1st Class Judicial Magis-

trate at Alipore, dated 20/05/2024

Archana Kumari (new name) and

same and identical person.

নাম) একই ব্যক্তি।

IDENTICAL PERSON.

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

আমাদের ছায়াপথের বাইরে অতিকায় লাল বল দেখা গিয়েছে

আকাশোমরা সাধারণত জানি সূর্য বড়। কিন্তু তা কত বড়, সে বিষয়ে আমাদের ধারনা আছে কি। বলা হয়ে থাকে এর ভিতরে সেঁধিয়ে যেতে পারে পৃথিবীর আকৃতির ১৩ লক্ষটি গ্রহ। কিন্তু সেই সূর্যকেই একটা বিন্দুর মতো মনে হবে ডব্লুওএইচ জি৬৪-র সামনে! বিশ্বাস হচ্ছে না। জানা গিয়েছে, এই নক্ষত্রটি অবশ্য আমাদের ছায়াপথের সদস্য নয়। ১ লক্ষ ৬০ হাজার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এই নক্ষত্রটি লার্জ ম্যাদেলানিক ক্লাউড ছায়াপথের তারা। এই প্রথম আমাদের ছায়াপথের বাইরের কোনও নক্ষত্রের ছবি তোলা সম্ভব হল।

ইউরোপিয়ান সাউদার্ন অবজারভেটরির ভেরি লার্জ টেলিস্কোপ ইন্টারফেরোমিটারে ধরা পড়েছে তার ছবি। এই অতিকায় নক্ষত্রটি কিন্তু সত্যিই 'দৈত্য'। এক অতিকায় লাল বল হয়ে তখন সে জ্বলে থাকে আকাশে। পরে অবশ্য দ্রুত ভর হারিয়ে নিজের বাইরের স্তরগুলিকে উড়িয়ে দেবে সে। যদিও ভিতরের মূল অংশ অক্ষতই থাকবে। ঘন হয়ে সেই তারাটি পরিণত হবে 'শ্বেত বামনে'। সেই সময় তাকে ঘিরে রাখবে এক গ্যাসের আন্তরণ। যাকে বলা হয় নেবুলা। এই অবস্থার শেষে 'কালো বামন' হয়ে পড়বে সেই নক্ষত্ৰ। তবে সেই দশায় পৌঁছতে এখনও দেরি রয়েছে। আপাতত ডব্লেওএইচ জি৬৪ এক অতিকায় ' দৈত্য' হিসেবে দৃশ্যমান।

হবে। অন্য বহু তারার মতোই শক্তির অভাবেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে সেও। আদতে তো যে কোনও নক্ষত্রই একটি উত্তপ্ত গ্যাসের বল। যা একনাগাড়ে শক্তি বিকিরিত করে চলেছে। সৌরজগতের এর বয়স প্রায়



এবং তার সেই বিরাট শরীরের সামনে আমাদের সূর্য কার্যতই বিন্দর! যার ডাকনাম দেওয়া হয়েছে 'লাল স্টার'। অর্থাৎ জলহস্তির মতো অতিকায়। সুপারনোভা হওয়ার পথে এখন সে নিঃসরণ করে চলেছে গ্যাস ও ধুলো। এই নক্ষত্রটির মতোই অবস্থা একদিন আমাদের সুর্যেরও

সাড়ে চারশো কোটি বছর। এত বছরের আয়ু সত্ত্বেও সূর্যকে 'বুড়ো' বলা যাবে না। কেননা নক্ষত্রের নিরিখে এ নেহাতই তুচ্ছ সময়। সেদিক বিচার করলে বলা যায়, সূর্য এক মাঝবয়সি তারা। নাসার বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, সূর্য তার অর্ধেক আয়র কাছাকাছি পৌঁছেছে।

ইসলামাবাদের পথে লক্ষ লক্ষ ইমরান সমর্থক,নিহত ৫ পাক সেনা!



২৬ নভেম্বর ঃ ইসলামাবাদের জেলে বন্দি অবস্থাতেই রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদর্শন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের। নেতার কারামক্তির দাবিতে সমর্থকদের আন্দোলনে পাকিস্তান। ইতিমধ্যে ইসলামাবাদমুখী বিক্ষোভ সহিংস আকার নিয়েছে। ইমরানের স্ত্রী বুশরা বিবির নেতৃত্বে আন্দোলনে সংঘর্ষে ৫ জন সেনার মৃত্যু হয়েছে। পরিস্থিতি শামাল দিতে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করেছে প্রশাসন। পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘটনাস্থলে গুলি চালানোরও নির্দেশ জারি করা হয়েছে

বলে খবর। সব মিলিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে পাকিস্তানে। বুশরা বিবির নেতৃত্বে শুরু হয়েছে ইমরান সমর্থকদের আন্দোলন। গোটা দেশ থেকে ইসলামাবাদের উদ্দেশে রওনা দেন দলীয় সমর্থকরা। আগেই ইমরানের জেলমুক্তির দাবিতে এই আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল দল। লক্ষ লক্ষ সমর্থক রাজধানী শহরে চেষ্টা ঢোকার কর্লে নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। তাতেই ৫ সেনাকর্মীর মত্যু হয়েছে বলে খবর। এখনও পর্যন্ত আহত হয়েছেন ১১৯ জন। অভিযোগ, পুলিশের ২২টি গাড়িতে আগুন

লাগিয়ে দেয় সমর্থকরা। ইতিমধ্যে তেহরিক-ই-পাকিস্তানের ৪ হাজার ক্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে খবর। খাইবার পাখতুন খাওয়ার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইমরান খান যতক্ষণ না মুক্তি পাচ্ছেন, ততক্ষণ আমরা পিছু হটব না। এগিয়েই যাব। সবাই প্রস্তুত হন। আমাদের আরও বাধা পেরোতে হবে। প্রথম থেকেই বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ইমরানের স্ত্রী বুশরা বিবি। সোমবার তিনি বলেন, খানকে (ইমরান খান) ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আমরা এখানে এসেছি। ইমরান খানকে নিয়েই ফিরব।

২০২২ সালে অনাস্থা ভোটে হেরে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে ইমরান খান একাধিক মামলায় অভিযুক্ত হন। তাঁর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ-সহ বেশ কিছু গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে। তবে ইমরান খানের দল প্রথম থেকেই এসব অভিযোগকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করে আসছে। ২০২৩ সালের মে মাসে ইমরান খানকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর পর এক বছরের বেশি সময় ধরে কারাগারে রয়েছেন ইমরান। তাঁর বিরুদ্ধে ১৫০টির বেশি ফৌজদারি

বিরোধীরা সম্ভলকে বাংলাদেশে পরিণত করতে চায় ঃ গিরিরাজ সিং

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশের সম্ভল জেলায় হিংসাত্মক ঘটনায় বিরোধীদের নিশানা করলেন কেঃদ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। তাঁর মতে, বিরোধীরা সম্ভলকে বাংলাদেশে পরিণত করতে চায়। সোমবার সংসদ চত্ত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেছেন, বিরোধীদের কারণে এই ঘটনা ঘটেছে, গোধরা ঘটনার মতো এটি বিরোধীদের পূর্ব পরিকল্পিত কৌশল। গিরিরাজ সিং আরও বলেছেন, এই হামলা সার্ভে টিমের ওপর আক্রমণ নয়, ভারতের সংবিধান ও গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণ ছিল। তাঁরা দেশকে ত্বালিয়ে দিতে চায়, তাঁরা সম্ভলকে বাংলাদেশে পরিণত করতে চায়। যারা মারা গেছে, হামলাকারীদের গুলিতে, পুলিশ নয়, ময়নাতদন্ত থেকে এটা পরিষ্কার। দেশ এটা সহ্য করবে না।

উত্তর প্রদেশে বুলেটের মাধ্যমে ন্যায়বিচার করা হচ্ছে ঃ চন্দ্রশেখর আজাদ

নয়াদিল্লি ও হাপুর, ২৬ নভেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশের সম্ভলে হিংসাত্মক ঘটনার তীব্র নিন্দা করলেন আজাদ সমাজ পার্টির জাতীয় সভাপতি চন্দ্রশেখর আজাদ। সোমবার হাপুরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সম্ভল হিংসার বিষয়ে আজাদ সমাজ পার্টির জাতীয় সভাপতি চন্দ্রশেখর আজাদ বলেন, আমি হিংসার বিরুদ্ধে, উত্তর প্রদেশে বুলেটের মাধ্যমে ন্যায়বিচার করা হচ্ছে এবং এই গুন্ডামি বরদান্ত করা যাবে না। এটা একটা ষড়যন্ত্র এবং আমাদের গরীব মানুষ এর শিকার হচ্ছে। এর আগে দিল্লিতে সংসদ চত্ত্বরে সংবাদ মাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে চন্দ্রশেখর আজাদ বলেছেন, সম্ভলের হিংসা একটি প্রধান ইস্যু, ৪ জন প্রাণ হারিয়েছে এবং এই সমস্যাটি সংসদে উত্থাপন করা উচিত। হিংসা কোনও সমাধান নয়। আমি তা সমর্থন করি না... ঘটনার তদন্ত হওয়া উচিত। এটা পুলিশ, প্রশাসন ও সরকারের ব্যর্থতা।

সোমবার ঝাড়খণ্ডে নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি প্রত্যাহার

রাঁচি, ২৬ নভেম্বর ঃ সোমবার ঝাড়খণ্ডে নির্বাচনী আচরণবিধির মেয়াদ শেষ হচ্ছে। এদিন আদর্শ আচরণবিধি প্রত্যাহারের ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। এই বিষয়ে মুখ্য সচিব এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কাছে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে বিগত ১৫ অক্টোবর থেকে ঝাড়খণ্ডে আদর্শ আচরণবিধি জারি হয়। এই পরিস্থিতিতে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ বন্ধ ছিল। নির্বাচন কমিশন আদর্শ আচরণবিধি প্রত্যাহার করে নেওয়ায় এবার সেইসব প্রকল্পের কাজ পনরায় শুরু করা সম্ভব হবে। ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা নির্বাচনে আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় ২০০ কোটি টাকারও বেশি নগদ, মাদকদ্রব্য এবং মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। ১০০টিরও বেশি এফআইআর-ও নথিভুক্ত করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

Name Change

মামলা হয়েছে

Sk Abdul Mannan (Old Name) S/o Md Halim Residing at 11/2/H/23, M.M. Ali Road, Khiddirpore, District -Kolkata, Pin-700023 West Bengal India shall henceforth be known as Abdul Mannan (New Name) as declared before the Notary Public, Kolkata vide affidavit Dated 26-11-2024. Sk Abdul Mannan (Old Name) and Abdul Mannan (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

, Debashish Bala (Old Name) S/o Shambhunath Bala Residing at Vill -Mahishyapara (Jharbari), P.o-Tungidighi, P.s - Karandighi, Dist.-Uttar Dinajpur Pin- 733215, W.B. India shall henceforth be known as Debashis Bala (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 22-11-2024. Debashish Bala (Old Name) and Debashis Bala (New Name) both are same and one

Name Change

, Madhusree Ray Chowdhury Pandit alias Madhusree Pandit (Old Name) D/o Pradyot Ray Chowdhury Residing at Uttarayan Flat No-8, Tentulberia, Near Sitanath Sishu Siksha Mandir School, Kolkata, Vtc+Po - Garia, Sub District -Sonarpur, District - 24 Pgs(S),Pin- 700084 West Bengal India shall henceforth be known as Madhusree Raychowdhury (New Name) as declared before the Notary Public, Kolkata vide affidavit Dated 26-11-2024. Madhusree Ray Chowdhury Pandit, Madhusree Pandit(Old Name) and Madhusree Raychowdhury (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Subrata Biswas পিতা Late Ashutosh Biswas (Date of Death: 20-12-2020) ঠিকানা Pakhiura, Kumari Ramnagar, Hanskhali, District - Nadia, West Bengal Pin- 741502, India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated ২৬-১১-২০২৪ এর Affidavit দারা যে আমার মৃত পিতা যিনি আগে পরিচিত ছিলেন নাম Asutosh Biswas এখন থেকে Ashutosh Biswas নামে পরিচিত হলেন। আমার মৃত পিতা Asutosh Biswas ও Ashutosh Biswas একই ব্যক্তি।

শীত পড়তেই পরিযায়ী পাখিরা ভিড়

জমাচ্ছে

প্রতি বছরই সাইবেরিয়া থেকে হাজির হয় অতিথি পাখিরা। এখন বরফঢাকা। ভারত, বিশেষত বঙ্গের শীতকাল তাদের খুবই প্রিয়। তাই সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের মতোই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে লেজার কুইন্সলেনিং-এর মতো পাখিরা হাজির। তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে পাশাপাশি রয়েছে এখানকার ডাহুক. পানকৌটি, বিভিন্ন প্রজাতির বকের

ঘাটালের হরিসিংহপুর পার্কের

ঝিলে ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি। সুদূর সাইবেরিয়া থেকে যেমন আসছে সাইবেরিয়ান পাখি. তেমনই আসছে বিভিন্ন প্রজাতির বক, পানকৌড়ি, চেতক, ডাহুক, বুনো হাঁস, বন মোরগ, ঘুঘু প্রভৃতি। তবে সাইবেরিয়া থেকে আগত পরিযায়ী পাখি দেখতেই ভিড় জমছে বেশি। বন দপ্তর গিয়েছে, জানা সাইবেরিয়ান পরিযায়ী পাখি লেজার কইন্সলেনিং বার্ড বলে পরিচিত। সাধারণত অক্টোবর মাসের শেষ ও নভেম্বর মাসের শুরুতে এই পরিযায়ী পাখির ঢল নামে। শীতে পারদ নামলে ঘাটালে মূলত নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে আসতে শুরু করে এই প্রজাতির পাখি। আর তাদের আনাগোনা শুরু হতেই পক্ষী শিকারিরাও ওতপেতে বসে থাকে শিকারের জন্য। ঘাটালের বনক্ষী মলয় ঘোষ জানাচ্ছেন, বন্যপ্রাণ আইনে পাখি শিকার দণ্ডনীয় অপরাধ। এই ধরণের পাখি আমাদের সবার অতিথি। তাকে বিরক্ত করাও উচিত নয়। বন দপ্তর থেকে যথোচিত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পরিযায়ী পাখি নিয়ে সতর্ক ঘাটাল পঞ্চায়েত সমিতিও।

Name Change

, Sk Jalaluddin Sardar (old name) son of Salauddin Sardar residing at Dwipa Polgustia, Howrah- 711414, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Jalaluddin Sardar (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 26/11/2024. Sk Jalaluddin Sardar (old name) and Jalaluddin Sardar (new name) both are same and one identi-

নাম পরিবর্তন

আমি Anjan Biswas পিতা Late Nema Biswas (Date of Death: 29-07-2006) ঠিকানা Chapra, Nadia, West Bengal Pin- 741202, India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated ২৬-১১-২০২৪ এর Affidavit দ্বারা যে আমার মৃত পিতা যিনি আগে পরিচিত ছিলেন নাম Nimai Biswas এখন থেকে Nemai Biswas নামে পরিচিত হলেন। আমার মত পিতা Nimai Biswas ও Nemai Biswas একই

Name Change

. Saniav Kumar Choudhury S/o. Late Tripathnath Choudhury Residing at Durgapur Panchanantala, P.o - Bally, P.s - Nischinda, District- Howrah, Pin-711205 West Bengal India shall henceforth be known as Saniav Choudhury as declared before the Ld. Judicial Magistrate (First Class) at Howrah vide affidavit Date 01-10-2024. Sanjay Choudhury and Sanjay Kumar Choudhury both as same and one identical person.

Name Change

Mehebub Mondal S/o Golam Mustafa Mondal Residing at Narendrapur, Rajpur, Sonarpur(M), Dist -South 24 Parganas, Pin - 700103. West Bengal India shall henceforth be known as Mahabub Mondal. I declare that Mehebub Mondal and Mahabub Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 26-11-2024

নাম পরিবর্তন

আমি Subrata Kumar Mondal alias Subrata Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Santosh Mondal ঠিকানা Paschim Harindanga, Haritala, Hanskhali, District- Nadia, Pin- 741502 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated ২৬-১১-২০২৪ এর Affidavit দারা আমার নাম এখন থেকে Subrata Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Subrata Mandal (নতুন নাম) ও Subrata Kumar Mondal, Subrata Mondal (পুরাতন

Name Change

Md Ismail Laskar(Old Name) S/o Noor Ahamde Laskar Residing at Vill-Purba Belaria, P.O.-Magrahat, P.S.-Magrahat, Dist.-South 24 Parganas, Pin-743355 have changed my name and shall henceforth be known as Ismail Laskar as declared before the Ld. Judicial Magistrate First Class, South 24 Parganas vide affidavit no 02AC396125 on dated 20/11/2024. Md Ismail Laskar and Ismail Laskar both are same and identical person

Name Change

PERSON.

of Md Babu Khan, residing at Einestine J C Bose Basti B-zone, P.S.- Dur-Durgapur-5, Paschim gal, INDIA, have changed my name before the Notary Public at Kolkata.

Name Change

Archana Devi (old name) both are নাম পরিবর্তন আমি, Nur Mohommad (পুরাতন নাম) পিতা Sekh Nuralam, ঠিকানা- Vill.- Kashwara Purba O Paschim, P.O.- Katsara, Pin 712102, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ২৬.১১.২০২৪ এর Affidavit দারা আমার নাম এখন থেবে Sekh Nurmahamed (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম । Sekh Nurmahamed cal person. (নতুন নাম) এবং Nur Mohommad (পুরাতন

নাম পরিবর্তন

আমি, Md Ansar Ali Paik (পুরাতন নাম) পিতা Iyar Ali Paik, ঠিকানা- Bangla Ka marpole, Diamond Harbour, P.S.- Ramnagar, Pin- 743368, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ২৬.১১.২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Ansar Ali Paik (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Ansar Ali Paik (নত্ত নাম) এবং Md Ansar Ali Paik (পুরাতন নাম)

I.PROVAS BOSE,SON OF KANTI BOSE, RESIDING AT DHARSA GOVT G I P COLONY, POST - GIF COLONY, HOWRAH - 711112, WEST BENGAL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRABHAS BOSE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN REFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/11/2024.THAT PROVAS BOSE AND PRABHAS BOSE BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL

Name Change

I, Md Babar Ali Khan (old name) son Bardhaman, Pin- 713205, West Benand shall henceforth be known as Md Babar Khan (new name) as declared dated 26/11/2024 Md Bahar Khan (new name) and Md Babar Ali Khan (old name) both are same and identi-

North 24 Pgs, Pin- 743291, West Ben-Gazi (new name) and Saiahan Gazi (old name) both are same and identi-

Name Change

I, Yasmeen (old name) wife of Mohd name and shall henceforth be known Fatima (new name) and Yasmeen (old name) both are same and identical

আমি, Azet Ali Molla (পুরাতন নাম) পিতা Morselim Molla, ঠিকানা- Paschim Narayan Para, Bhomara, P.O.- Babnan, Hooghly, Pin-712305, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ২৬.১১.২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Ajed Ali Molla (নতন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Ajed Ali Molla (নতুন নাম) এবং Azet Ali Molla (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

Name Change

I, Suchi Subhra Chatterjee (old name) daughter of Amal Bikash Choudhury, residing at Mangalmurty Recy, Flat-2A, 1st Floor No-2, Motilal Colony, Italgaccha, Barrackpore, North 24 Pgs, Pin- 700038, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Suchi Subhra Choudhury (new name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata, dated 25/11/2024 Suchi Subhra Choudhury (new name) and Suchi Subhra Chatterjee (old name) both are same and identical

Name Change

Md Asif (old name) son of Late Mohammad Hasnain, residing at 1st Sajahan Gazi (old name) son of Floor, Flat- 101, Thanamakua D Sk Golam Rahaman Gazi, residing at Vill Lane. Bakultala Khalpar, Howrah-& P.O.- Mominpur, P.S.- Matia, Dist.- 711109, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall hencegal, INDIA, have changed my name forth be known as Mohammad Asil and shall henceforth be known as (new name) as declared before the Shahajan Gazi (new name) as de- 1st Class Judicial Magistrate at clared before the Notary Public at Kolkata, dated 25/11/2024, Moham-Kolkata, dated 26/11/2024. Shahajan | mad Asif (new name) and Md Asif (old name) both are same and identical

Name Change

I. Barendra Nath Biswas (old name) son of Late Sarat Biswas, residing at Ábdullah, residing at 28/9, Chandra∥ Santosha, P.O.- Mangal Ganj, Šin Nath Roy Road, 3rd floor, C.N. Roy drani, P.S.- Bagdah, Dist.- North 24 Road, Tiljala, Kolkata- 700039, West Bengal, Bengal, INDIA, have changed my INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Barenas Yasmeen Fatima (new name) as declared declared before the Notary Public at | before the Notary Public at Kolkata Kolkata, dated 26/11/2024. Yasmeen dated 26/11/2024. Barendra Biswas (new name) and Barendra Nath Biswas (old name) both are same and identical person

Name Change

নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Md Siraj (পুরাতন নাম) পিতা Abdul Jalil, ঠিকানা- 22H6, BRIGHT STREET,

CIRCUS AVENUE, KOLKATA- 700017

West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ২৬.১১.২০২৪ এর Affi

davit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Md Shi-raz (নতন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Md

Shiraz (নতুন নাম) এবং Md Siraj (পুরাতন

Sambhudas Sukumar Das (old name) son of Sukumar Das Santosh Das (father) and Parulbala Sukuma Das (mother), husband of Bulbul Sambhu Das, residing at 179/19, Gonal Lal Thakur Road, Baranagai (M), P.O.- Alambazar, P.S.- Baranagar Dist- North 24 Pgs, Pin- 700035, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Shambhu Das (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 26/11/2024. Shambhu Das (new name) and Sambhudas Sukumar Das (old name) both are same and identical person.

Name Change

, Anup Kumar Biswas (old name) son of Barendra Biswas, residing at Santosha, P.O.- Mangal Ganj, Sindrani, P.S.- Bagdah, Dist.- North 24 Pgs Pin- 743297, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Anup Biswas (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 26/11/2024 Anup Biswas (new name) and Anup Kumar Biswas (old name both are same and identical person.

Name Change

I, Mohammad Mumtaz Ahmad (old name) son of Raza Hussain, residing at 4A, Ekbalpore Lane, P.S.- Ekbal pore, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mumtaz Ahmad (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 26/11/2024. Mumtaz Ahmad (new name) and Mohammad Mumtaz Àhmad (old name) both are same and

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for an offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated October 15, 2024 (the "Letter of Offer' or "LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

IGC INDUSTRIES LIMITED

(Formerly known as IGC Foils Limited)

Corporate Identification Number: L01100WB1980PLC032950

Our Company was originally incorporated as Maxwell Traders & Exporters Limited under the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Kolkata and consequently a certificate of incorporation dated August 26, 1980. Later, the name of the company was changed from "Maxwell Traders & Exporters Limited" to "IGC Foils Ltd" vide fresh certificate of incorporation consequent upon change of name "ROC letter no NCR/CN/329500/19/5/98". Subsequently the name of the Company was changed from "IGC Foils Ltd" to its present name "IGC Industries Limited" vide fresh certificate of incorporation consequent upon change of name dated October 03, 2017

> Registered Office: 12 Government Place (East), 1st Floor Formerly Hemanta Basu Sarani, Kolkata-400069 Tel. NO.: 033-46021453; 8882864121 E-mail: igcfoils@gmail.com; Website: www.igcindustriesltd.com; Contact Person: Arpit Jain, Company Secretary and Compliance Officer

RIGHT ISSUE OF UPTO 3,24,80,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10.00 EACH ("EQUITY SHARES" OR "RIGHTS EQUITY SHARES) OF OUR COMPANY FOR CASHAT A PRICE OF ₹13.00 PER RIGHTS EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹3.00 PER RIGHTS EQUITY SHARE (THE "ISSUÉ PRICE") AGGREGATING UP TO ₹4222.40 LAKH ("THE ISSUE") ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF TWENTY NINE (29) RIGHT EQUITY SHARE FOR EVERY TWO (2) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ON THE RECORD DATE. THAT IS OCTOBER 18, 2024 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 118 OF THIS LETTER OF OFFER. fully subscribed

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company thanks all its shareholders and investors for their response to the Company's Rights Issue of Equity Shares, which opened for subscription or Monday, November 04, 2024 and closed on Monday, November 18, 2024 and the last date for On Market Renunciation of Rights Entitlements was Tuesday, November 12, 2024. Out of the total 228 Applications for 12377944 Rights Equity Shares, 314 Applications for 1276044 Rights Equity Shares were rejected on grounds of "technical reasons" as disclosed in the Letter of Offer, The total numbers of valid applications were 1105 for 48558278 Rights Equity Shares, which was 149.50% of the number of Rights Equity Shares allotted under the Issue. Our Company in consultation with Registrar to the Issue and BSE Limited, the Designated Stock Exchange on November 22, 2024, approved the allotment of 3,24,80,000 fully paid -up Rights Equity Shares to the successful applicants. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. All valid applications have been considered for

1. The break-up of valid Applications received through ASBA (after technical rejections) is given below:

Cagteory	Number of Equity Shares Allotted - against REs (including ASBA applications) received	Number of Equity Shares Allotted - Against valid additional shares	Total Equity Shares Allotted
	Number	Number	Number
Eligible Equity Shareholders	5188272	2892477	8080749
Renouncees	1466439	22932812	24399251
Total	6654711	25825289	32480000

2. Information regarding total Applications received (including ASBA applications received):

Category	Gross			Less: Rejections/Partial Amount			Valid		
	Applications	Shares	Amount (₹)	Applications	Shares	Amount (₹)	Applications	Shares	Amount (₹)
Eligible Equity Shareholders	632	8213142	106770846.00	2	132393	1721109.00	630	8080749	105049737.00
Fraction	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Renouncees	476	40477539	526208007.00	1	10	130.00	475	40477529	526207877.00
Not a eligible equity shareholders of the company	311	1143641	14867333.00	311	1143641	14867333.00	0	0	0.00
Total	1419	49834322	647846186.00	314	1276044	16588572.00	1105	48558278	631257614.00

ntimations for Allotment, Refund / Rejections Cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, has been completed October 31, 2024. The instructions to (i) Self Certified Syndicate Bank ("SCSBs") for unblocking of funds in case of ASBA applications were given on November 23, 2024. The listing application was executed with BSE on 26th November, 2024. The credit of Equity Shares in dematerialized form to respective demat accounts of Allottees has been completed with NSDL and CDSL on 26th November, 2024. No physical shares were allotted in the Rights issue. Pursuant to the listing and trading approvals granted by BSE, the Equity Shares allotted in the Issue is expected to commence trading on BSE on or about 28th November, 2024. In accordance with SEBI circular dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlement has been sent to NSDL & CDSL on 26th November, 2024.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: It is to be distinctly understood that the Submission of LOF to SEBI should not in any way be deemed or construed that SEBI has cleared

or approved the LOF. The Investors are advised to refer to the full text of the "Disclaimer Clause of SEBI/" beginning on page 108 of the LOF. DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in anyway, be

deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of BSE" beginning on page 108 of the LOF. REGISTRAR TO THE ISSUE COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

Purva Sharegistry (India) Private Ltd. CIN: U67120MH1993PTC074079 Unit no. 9. Shiv Shakti Ind. Estt. J. R. Boricha Marg.

Lower Parel (E) Mumbai 400 011. Telephone: +91 22 4961 4132; Facsimile: +91 22 22 3570 0224 Investor grievance e-mail: support@purvashare.com

https://www.purvashare.com/ Contact Person: Ms. Deepali Dhuri;

SEBI Registration No.: INRO00001112

IGC INDUSTRIES LIMITED

Registered office: 12 Government Place (East), 1st Floor Formerly Hemanta Basu Sarani, Kolkata-400069

Telephone: 033-46021453: 8882864121

E-mail: igcfoils@gmail.com;

Website: www.igcindustriesltd.com;

Contact Person: Mr. Arpit Jain., Company Secretary & Compliance Officer

Investor may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving complete details such as name, address of the Applicant, contact number(s), e-mail address of the sole/ first holder, folio number or demat account, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Form, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE RIGHTS EQUITY SHARES OR THE BUSINESS

PROSPECTS OF THE COMPANY.

FOR IGC INDUSTRIES LIMITED

SALMAN MAHIBUB SAYYAD Managing Director DIN: 09837263

Date: November 26, 2024

The LOF is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the Stock Exchanges i.e., BSE Limited at www.bseindia.com, the Company at <u>ww.igcindustriesltd.com</u>, the Registrar at https://www.purvashare.com and Investors should note that investment in equity shares involves a degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk actors" beginning on page 24 of the LOF. The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been, and will not be, registered under the U.S Securities Act and may not be offered or sold within the United States, except

pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Rights Entitlements (including their credit) and the Rights Equity Shares are only being offered and sold outside the United States in "offshore transactions" as defined in and in reliance on Regulation § under the U.S. Securities Act to Eligible Equity Shareholders located in jurisdictions where such offer and sale is permitted under the laws of such jurisdictions. There will be no public offering in the United States.